

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 395]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019—आषाढ़ 25, शक 1941

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019

अधिसूचना

क्रमांक-एफ 1-106/2019/18.—छ. ग. नगर पालिक अधिनियम 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पालिक निगम कोरबा, जिला कोरबा के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता है :-

1. कोरबा नगर पालिक निगम को 67 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है ।
2. यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा ।

—: अनुसूची :-

| वार्ड क्रमांक | वार्ड का नाम |
|---------------|-------------------------------|
| 1 | रामसागर पारा वार्ड |
| 2 | साकेत नगर वार्ड |
| 3 | राताखार वार्ड |
| 4 | देवांगनपारा वार्ड |
| 5 | धनुहार पारा वार्ड |
| 6 | पुरानी बस्ती वार्ड |
| 7 | मोतीसागर पारा वार्ड |
| 8 | ईमलीडुग्गू वार्ड |
| 9 | भिलाईखुर्द वार्ड |
| 10 | सीतामणी वार्ड |
| 11 | नई बस्ती वार्ड |
| 12 | शारदा विहार वार्ड |
| 13 | परिवहन नगर वार्ड |
| 14 | पंप हाउस वार्ड |
| 15 | छ.ग.रा.वि.मं.क्र. 01 वार्ड |
| 16 | कोहड़िया वार्ड |
| 17 | पथरीपारा वार्ड |
| 18 | छ.ग.रा.वि.मं.क्र. 02 वार्ड |
| 19 | छ.ग.रा.वि.मं.क्र.03 वार्ड |
| 20 | काशीनगर वार्ड |
| 21 | बुधवारी वार्ड |
| 22 | शिवाजी नगर वार्ड |
| 23 | पं.रविशंकर शुक्ल नगर वार्ड |
| 24 | महाराणा प्रताप नगर वार्ड |
| 25 | नेहरू नगर वार्ड |
| 26 | मुड़ापार वार्ड |
| 27 | एस.ई.सी.एल.कालोनी वार्ड |
| 28 | डा.राजेन्द्र प्रसाद नगर वार्ड |
| 29 | पोंडीबहार वार्ड |
| 30 | मानिकपुर वार्ड |
| 31 | खरमोरा वार्ड |
| 32 | कोसाबाडी वार्ड |

| | |
|----|--------------------------------|
| 33 | रामपुर वार्ड |
| 34 | लालघाट वार्ड |
| 35 | रिसदा वार्ड |
| 36 | पाडीमार क्र. 01 वार्ड |
| 37 | पाडीमार क्र. 02 वार्ड |
| 38 | बालको नगर वार्ड |
| 39 | कैलाश नगर वार्ड |
| 40 | परसाभाठा क्र. 01 वार्ड |
| 41 | परसाभाठा क्र. 02 वार्ड |
| 42 | रूमगरा वार्ड |
| 43 | हसदेव क्र. 01 वार्ड |
| 44 | हसदेव क्र. 02 वार्ड |
| 45 | हसदेव क्र. 03 वार्ड |
| 46 | अयोध्यापुरी वार्ड |
| 47 | जमनीपाली वार्ड |
| 48 | सुमेधा वार्ड |
| 49 | शक्तिनगर क्र.01 वार्ड |
| 50 | शक्तिनगर क्र.02 वार्ड |
| 51 | सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर वार्ड |
| 52 | दरीखार 01 वार्ड |
| 53 | दरीखार 02 वार्ड |
| 54 | सर्वमंगला नगर वार्ड |
| 55 | बलगीखार वार्ड |
| 56 | डगनियाखार वार्ड |
| 57 | भैरोताल वार्ड |
| 58 | इमलीछापर वार्ड |
| 59 | विकास नगर वार्ड |
| 60 | गेवरा वार्ड |
| 61 | आदर्श नगर वार्ड |
| 62 | नरईबोध वार्ड |
| 63 | मोंगरा वार्ड |
| 64 | घुडदेवा वार्ड |
| 65 | बांकीमोंगरा क्र. 01 वार्ड |
| 66 | बांकीमोंगरा क्र. 02 वार्ड |
| 67 | गजरा वार्ड |

कोरबा नगरपालिक निगम के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण

वार्ड क्र. 01 रामसागर पारा वार्ड

- उत्तर :- मिशन स्कूल (ज्योति उ. मा.वि.) से कोल डायवर्सन रोड होते हुए आंगनबाड़ी के दायी ओर से दर्सी रोड पर पेट्रोल पंप तक।
 पूर्व :- दर्सी रोड पेट्रोल पंप से मुरारका पेट्रोल पंप होते हुए रेल्वे क्रॉसिंग तक।
 दक्षिण :- रेल्वे क्रॉसिंग से रेल्वे लाईन किनारे-किनारे सर्वमंगला रेल्वे पुल तक।
 पश्चिम :- सर्वमंगला पुल से नदी किनारे होते हुए मिशन स्कूल (ज्योति उ.मा.वि.) तक।

वार्ड क्र. 02 साकेत नगर वार्ड

- उत्तर :- नहर किनारे गेरवाघाट मोहल्ला से माडर्न स्कूल, अटल आवास एवं बुधिया पेट्रोल पंप के बाहरी अहाता दायी तरफ से स्टेडियम रोड होते हुए टी. पी.नगर नेहरू चौक तक।
 पूर्व :- नेहरू चौक से पावर हाउस रोड होते हुए सुनालिया पुल तक।
 दक्षिण :- सुनालिया पुल से पा.हा.रोड दायी ओर होते हुए मुरारका पेट्रोल पंप तक।
 पश्चिम :- मुरारका पेट्रोल पंप से दर्सी रोड होते हुए नहर किनारे गेरवाघाट मोहल्ला तक।

वार्ड क्र. 03 राताखार वार्ड

- उत्तर :- हसदेव नदी किनारे टीना दफाई से नहर तक।
 पूर्व :- नहर से दर्सी रोड नहर तिराहा होते हुए कोल डायवर्सन रोड से पेट्रोल पंप के किनारे दायी तरफ तक।
 दक्षिण :- पेट्रोल पंप के किनारे दायी तरफ से तालाब के किनारे से आंगन बाड़ी भवन के पीछे से कोलडायवर्सन रोड होते हुए हसदेव नदी तक।
 पश्चिम :- हसदेव नदी किनारे राताखार बस्ती होते हुए टीना दफाई तक।

वार्ड क्र. 04 देवांगनपारा वार्ड

- उत्तर :- सर्वमंगला रेल्वे पुल से रेल्वे लाईन किनारे किनारे दुरपा रोड होते हुए रेल्वे क्रॉसिंग मेन रोड तक।
 पूर्व :- रेल्वे क्रॉसिंग से मेन रोड गांधी चौक से रानी गेट तक।
 दक्षिण :- रानी गेट से के.एन.कॉलेज के बाहर प्रा.शा. भवन के बायी ओर विश्वनाथ मंदिर होते हुए पचरी घाट तक।
 पश्चिम :- के.एन.कॉलेज के बाहर पचरी घाट चीर बंगला रोड दायी ओर होते हुए इंदिरा नगर सर्वमंगला पुल तक।

वार्ड क्र. 05 धनुहार पारा वार्ड

- उत्तर :- प्रा.शाला. रानी गेट से रानी रोड होते हुए गायत्री मंदिर चौक तक।
 पूर्व :- गायत्री मंदिर चौक से मोतीसागर रोड होते हुए मुक्तिधाम तिराहा तक।
 दक्षिण :- मुक्तिधाम तिराहा से मुक्तिधाम से पचरी घाट हसदेव नदी तक।
 पश्चिम :- पचरी घाट हसदेव नदी किनारे विश्वनाथ मंदिर से प्रा.शा भवन के दायी ओर होते हुए रानी गेट तक।

वार्ड क्र. 06 पुरानी बस्ती वार्ड

- उत्तर :- गांधी चौक से मुख्यमार्ग होते हुए रवि साउण्ड सर्विस चौराहा तक ।
 पूर्व :- रवि साउण्ड सर्विस से आगे मेन रोड होते हुए एस.एन. सिंह के मकान तक ।
 दक्षिण :- एस.एन. सिंह के मकान से मोतीसागर मार्ग उडिया मोहल्ला मोची मोहल्ला शीतला मन्दिर, बजरंग मंदिर से मुक्तिधाम तिराहा एवं ईतवारी बाजार गायत्री मंदिर चौक रानी रोड दाँयी ओर होते हुए रानी गेट तक ।
 पश्चिम :- रानी गेट से पुरानी बस्ती बाँयी ओर होते हुए गाँधी चौक तक ।

वार्ड क्र. 07 मोतीसागर पारा वार्ड

- उत्तर :- मुक्तिधाम नदी किनारे से मुक्तिधाम मोतीसागर पारा होते हुए एस.डी. सिंह के मकान तक ।
 पूर्व :- एस.डी.सिंह. के मकान से मुख्य मार्ग होते हुए ईमलीडुगू नहर तिराहा तक ।
 दक्षिण :- ईमली डुगू नहर तिराहा से पोखरीपारा हसदेव नदी तक ।
 पश्चिम :- हसदेव नदी किनारे किनारे होते हुए मुक्तिधाम तक ।

वार्ड क्र. 8 ईमलीडुगू वार्ड

- उत्तर :- स्टेशन तिराहा चौक से रेल्वे स्टेशन होते हुए रेल्वे लाईन पुल तक ।
 पूर्व :- रेल्वे लाईन पुल से नवीन हाई स्कूल के सामने गली दायी ओर से हनुमान दरबार होते हुए नहर पुल मेन रोड तक ।
 दक्षिण :- नहर पुल मेन रोड से सीतामणी चौक तिराहा से मेन रोड गुप्ता किराना स्टोर तक ।
 पश्चिम :- मेन रोड गुप्ता किराना स्टोर से रमेश गली होते हुए रांकेश बुक डिपो से स्टेशन रोड स्टेशन तिराहा चौक तक ।

वार्ड क्र. 09 भिलाईखुर्द वार्ड

- उत्तर :- नहर पुल मेन रोड से हनुमान दरबार होते हुए नवीन हाई स्कूल के सामने गली से रेल्वे पुल रेल्वे लाईन होते हुए निगम सीमा डेलवाडीह तक ।
 पूर्व :- डेलवाडीह सीमा से रापाखर्रा ग्रामसीमा होते हुए कर्नाला बरबसपुर सीमा डोम नाला तक ।
 दक्षिण :- बरबसपुर ग्राम से डोमनाला होते हुए हसदेव नदी तक ।
 पश्चिम :- हसदेव नदी किनारे किनारे होते हुए मानिकपुर खदान ईमली डुगू तिराहा से नहर पुल मेन रोड तक ।

वार्ड क्र. 10 सीतामणी वार्ड

- उत्तर :- मेन रोड मुरारकागली से रेल्वे लाईन नहर पुल तक ।
 पूर्व :- रेल्वे लाईन से होते हुए रेल्वे कॉसिंग स्टेशन रोड तिराहा तक ।
 दक्षिण :- स्टेशन रोड तिराहा से रांकेश बुक डिपो रमेश गली होते हुए गुप्ता किराना स्टोर मेन रोड सीतामणी तक ।
 पश्चिम :- गुप्ता किराना स्टोर मेन रोड सीतामणी से मेन रोड मुरारका गली तक ।

वार्ड क्र. 11 नई बस्ती वार्ड

- उत्तर :- मस्जिद से पावर हाउस रोड होते हुए शारदा विहार रेल्वे क्रॉसिंग तक ।
 पूर्व :- शारदा विहार रेल्वे क्रॉसिंग से पानी टंकी मोहल्ला रेल्वे लाईन तक ।
 दक्षिण :- पानी टंकी मोहल्ला रेल्वे लाईन से मुरारका गली मेन रोड तक ।
 पश्चिम :- मेन रोड मुरारका गली से मेन रोड होते हुए मस्जिद तक ।

वार्ड क्र. 12 शारदा विहार वार्ड

- उत्तर :- शारदा विहार रेल्वे क्रॉसिंग से नेहरू चौक से पेट्रोल पंप तिराहा कोल डायवर्सन रोड तक
 पूर्व :- पेट्रोल पंप से कोल डायवर्सन रोड होते हुए रेल्वे कॉलोनी झोपड़ पट्टी तक ।
 दक्षिण :- रेल्वे कॉलोनी झोपड़ पट्टी से रेल्वे कॉलोनी क्वा. नं. 1/80 के सामने से रेल्वे क्रॉसिंग तक ।
 पश्चिम :- रेल्वे क्रॉसिंग से रेल्वे लाईन होते हुए शारदा विहार क्रॉसिंग तक ।

वार्ड क्र. 13 परिवहन नगर वार्ड

- उत्तर :- एस.ई.सी.एल. पानी टंकी से सी.एस.ई.बी. रोड होते हुए सी.एस.ई. बी. चौक तक ।
 पूर्व :- सी.एस.ई.बी. चौक से मुख्यमार्ग होते हुए नेहरू चौक तक ।
 दक्षिण :- नेहरू चौक से स्टेडियम रोड होते हुए पंजाबी गुरुद्वारा तक ।
 पश्चिम :- पंजाबी गुरुद्वारा से 15 ब्लॉक पंप हाउस मार्ग होते हुए एस.ई.सी. एल. पानी टंकी तक ।

वार्ड क्र. 14 पंप हाउस वार्ड

- उत्तर :- एस.ई.सी.एल. पंप हाउस से एस.ई.सी.एल. पानी टंकी तक ।
 पूर्व :- एस.ई.सी.एल. पानी टंकी से पंप हाउस पानी टंकी तक ।
 दक्षिण :- एस.ई.सी.एल. पानी टंकी से बुधिया पेट्रोल पंप के बाहरी अहाता - अटल आवास के अहाता से माडर्न स्कूल के बाहरी अहाता होते हुए हसदेव नदी तक ।
 पश्चिम :- हसदेव नदी किनारे होते हुए एस.ई.सी.एल. पंप हाउस तक ।

वार्ड क्र. 15 छ.ग.रा.वि.मं. क्र. 01 वार्ड

- उत्तर :- रसियन हास्टल से ढेंगुरनाला होते हुए ढेंगुरनाला पुल तक ।
 पूर्व :- ढेंगुरनाला पुल से सी.एस.ई.बी. चौक तक ।
 दक्षिण :- सी.एस.ई.बी. चौक से पंचवटी रेस्ट हाउस मार्ग होते हुए नदी किनारे पम्प हाउस तक ।
 पश्चिम :- नदी किनारे पम्प हाउस से नदी किनारे-किनारे रसियन हास्टल तक ।

वार्ड क्र. 16 कोहड़िया वार्ड

- उत्तर :- हसदेव बराज से ध्यानचंद चौक होते हुए बेलगरी नाला नहर साईफन तक।
 पूर्व :- बेलगरी नाला से रिटर्न केनाल होते हुए पावर हाऊस बाउण्ड्री से ढेंगुरनाला तक।
 दक्षिण :- ढेंगुरनाला किनारे-किनारे हसदेव नदी तक।
 पश्चिम :- हसदेव नदी के किनारे-किनारे बराज तक।

वार्ड क्र. 17 पथरीपारा वार्ड

- उत्तर :- ढेंगुरनाला पुल से गणेश पंडाल पथरीपारा तक दौयी ओर।
 पूर्व :- रेल्वे पुलिया से गणेश पंडाल होते हुए इंदिरा चौक तक।
 दक्षिण :- इंदिरा चौक से अंधरी कछार तिराहा-नायर गली-गांधी पुतला-जैन मंदिर चौक होते हुए सी.एस.ई.बी. चौक तक।
 पश्चिम :- सी.एस.ई.बी. चौक से मुख्य मार्ग होते हुए ढेंगुरनाला पुल तक।

वार्ड क्र. 18 छ.ग.रा.वि.मं. क्र. 02 वार्ड

- उत्तर :- रिटर्न केनाल से बालको फिल्टर प्लांट तक।
 पूर्व :- बालको फिल्टर प्लांट से मुख्य मार्ग के साथ-साथ आई.टी.आई. चौक होते हुए रामपुर पुलिस चौकी से आगे दूसरी रोड तक।
 दक्षिण :- रामपुर पुलिस चौकी से आगे दूसरी रोड से आंतरिक भाग होते हुए आरामशीन चौक तक।
 पश्चिम :- आरामशीन चौक से अंधरीकछार स्कूल तिराहा-इंदिरा चौक-ढेंगुरनाला रेल्वे पुलिया से रिटर्न केनाल तक।

वार्ड क्र. 19 छ.ग.रा.वि.मं. क्र. 03 वार्ड

- उत्तर :- आरामशीन चौक से कॉलोनी मार्ग होते हुए रामपुर पुलिस चौकी के आगे दूसरी रोड तक।
 पूर्व :- रामपुर चौकी के आगे दूसरी रोड से नीलाम्बरी चौक तक।
 दक्षिण :- नीलाम्बरी चौक से मुख्य मार्ग होते हुए सुभाष चौक तक।
 पश्चिम :- सुभाष चौक से आरामशीन चौक तक।

वार्ड क्र. 20 काशीनगर वार्ड

- उत्तर :- गांधी पुतला के पास बुधराम मिस्त्री घर से नायर गली होते हुए आरामशीन तिराहा तक।
 पूर्व :- आरामशीन तिराहा से सुभाष चौक तक।
 दक्षिण :- सुभाष चौक से महानदी विस्तार काम्पलेक्स तक।
 पश्चिम :- महानदी विस्तार काम्पलेक्स से ज्ञानांजली स्कूल-आर्य विद्या मंदिर-शेषमणी सोनी-राजेश चंद्रा घर होते हुए गांधी पुतला के पास बुधराम मिस्त्री घर तक।

वार्ड क्र. 21 बुधवारी वार्ड

- उत्तर :- जैन मंदिर चौक से गांधी पुतला होते हुए गौरी शंकर मंदिर तक।
 पूर्व :- गौरीशंकर मंदिर से राजेश चंद्रा, शेषमणी सोनी-आर्य शिशु मंदिर-मंच-ज्ञानांजली स्कूल दायी ओर होते हुए महानदी विस्तार काम्पलेक्स स्मृति उद्यान तक।
 दक्षिण :- महानदी विस्तार काम्पलेक्स से घंटाघर चौक तक।
 पश्चिम :- घंटाघर चौक से मुख्य मार्ग में महाराणा प्रताप चौक होते हुए जैन मंदिर चौक तक।

वार्ड क्र. 22 शिवाजी नगर वार्ड

- उत्तर :- घंटाघर से निहारिका रोड सुभाष चौक तक।
 पूर्व :- सुभाष चौक से सुभाष मार्ग होते हुए शिवाजी नगर कॉलोनी के सामने पोंडीबहार मार्ग नाला तक।
 दक्षिण :- नाला से नाला होते हुए तरुण शर्मा के मकान तक।
 पश्चिम :- तरुण शर्मा के मकान से शिवाजी नहर मार्ग होते हुए घंटाघर चौक तक।

वार्ड क्र. 23 पं.रविशंकर शुक्ल नगर वार्ड

- उत्तर :- एस.ई.सी.एल. जी.एम. ऑफिस चौक से म.प्र.नगर अटल आवास तिराहा तक।
 पूर्व :- महाराणा प्रताप नगर अटल आवास तिराहा से तरुण शर्मा घर से नाला के साथ एस. एल.आर.एम.सेन्टर होते हुए एस.ई.सी.एल. मेग्जीन के पास शराब दुकान तक।
 दक्षिण :- एस.ई.सी.एल. मेग्जीन के पास शराब दुकान से नाला के साथ-साथ मानिकपुर मुक्तिधाम के पास मानिकपुर रोड तक।
 पश्चिम :- मानिकपुर मुक्तिधाम के पास मानिकपुर रोड के साथ साथ एस.ई.सी.एल. जी.एम. ऑफिस चौक तक।

वार्ड क्र. 24 महाराणा प्रताप नगर वार्ड

- उत्तर :- एस.ई.सी.एल. ईदगाह से मुख्यमार्ग के साथ साथ घंटाघर चौक तक।
 पूर्व :- घंटाघर चौक से म.प्र.नगर अटल आवास तिराहा तक।
 दक्षिण :- म.प्र.नगर अटल आवास तिराहा से एस.ई.सी.एल. मनोरंजन क्लब तक।
 पश्चिम :- एस.ई.सी.एल. मनोरंजन क्लब से एस.ई.सी.एल. कालोनी एम टाईप होते हुए एस.ई.सी. एल. ईदगाह तक।

वार्ड क्र. 25 नेहरू नगर वार्ड

- उत्तर :- टी.पी.नगर (नेहरू) चौक से सी.एस.ई.बी. चौक तक।
 पूर्व :- सी.एस.ई.बी. चौक से जैनमंदिर चौक-महाराणा प्रताप नगर चौक होते हुए घंटाघर चौक तक।
 दक्षिण :- घंटाघर चौक से ईदगाह के सामने मार्ग पर एस.ई.सी.एल. कॉलोनी एम.टाईप मकान-मनोरंजन क्लब होते हुए एस.ई.सी.एल. जी.एम. ऑफिस चौक तक।
 पश्चिम :- एस.ई.सी.एल. जी.एम.ऑफिस चौक से टी.पी.नगर (नेहरू) चौक तक।

वार्ड क्र. 26 मुड़ापार वार्ड

- उत्तर :- कोल डायवर्सन रोड तिराहा से काली मंदिर चौक तक।
 पूर्व :- काली मंदिर चौक से आंतरिक मार्ग होते हुए कोल डायवर्सन रोड तक।
 दक्षिण :- कोल डायवर्सन मार्ग होते हुए अमरैयापारा तिराहा तक।
 पश्चिम :- अमरैयापारा तिराहा से कोल डायवर्सन रोड होते हुए कोल डायवर्सन तिराहा तक।

वार्ड क्र. 27 एस.ई.सी.एल. कालोनी वार्ड

- उत्तर :- एस.ई.सी.एल. काली मंदिर चौक से एस.ई.सी.एल. जी.एम.ऑफिस चौक होते हुए मानिकपुर रोड पर चित्रगुप्त मंदिर तक।
- पूर्व :- मानिकपुर रोड पर चित्रगुप्त मंदिर से मुक्तिधाम के समीप स्थित नाला के साथ साथ रेल्वे लाईन तक।
- दक्षिण :- रेल्वे लाईन पर नाला से रेल्वे लाईन के साथ साथ रेल्वे कॉलोनी को शामिल करते हुए क्रांसिंग तक।
- पश्चिम :- रेल्वे कॉलोनी क्रांसिंग से रेल्वे कॉलोनी-मुड़ापार बाईपास रोड पर भागवत सिंह के घर से बस्ती होते हुए एस.ई.सी.एल. काली मंदिर चौक तक।

वार्ड क्र. 28 डॉ.राजेन्द्र प्रसाद नगर वार्ड

- उत्तर :- सुभाष चौक से शास्त्री चौक-डी.एफ.ओ. बंगला के सामने-चिकित्सालय के पीछे होते हुए तहसील कार्यालय से रजगामार रोड रिसदी चौक तक।
- पूर्व :- रिसदी चौक से रजगामार डेड रेल्वे लाईन तक।
- दक्षिण :- रजगामार डेड रेल्वे लाइन से जिला जेल के सामने से औद्योगिक प्रक्षेत्र होते हुए शिवाजी नगर डेड रेल्वे क्रांसिंग तक।
- पश्चिम :- शिवाजी नगर डेड रेल्वे क्रांसिंग से सुभाष चौक तक।

वार्ड क्र. 29 पोंडीबहार वार्ड

- उत्तर :- शिवाजी नगर डेड रेल्वे लाईन (पोंडीबहार तालाब) से डेड रेल्वे लाईन के साथ शांतिनगर तक।
- पूर्व :- शांतिनगर से खरमोरा स्कूल के पीछे डी.सी.डनसेना के मकान से स्कूल होते हुए हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मोड़ तक।
- दक्षिण :- हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मोड़ से दैहानपारा से एस.ई.सी.एल. मेग्जीन शराब दुकान नाला होते हुए एस.एल.आर.एम. सेन्टर तक।
- पश्चिम :- एस.एल.आर.एम. सेन्टर से नाला के साथ साथ तरुण शर्मा-घनश्याम साहू-शर्मा पोल्ट्रीफार्म होते हुए पोंडीबहार तालाब के पास डेड रेल्वे लाईन तक।

वार्ड क्र. 30 मानिकपुर वार्ड

- उत्तर :- मानिकपुर रेल्वे लाईन पर नाला से नाला के साथ साथ मानिकपुर मुक्तिधाम एवं दादर रोड पर पुलिया तक।
- पूर्व :- दादर रोड पर पुलिया से रोड के साथ साथ दादर खरमोरा चौक स्वागत द्वार-दादर पोस्ट ऑफिस होते हुए चौहान सामाज सामुदायिक भवन तक।
- दक्षिण :- चौहान समाज सामुदायिक भवन से दादरखुर्द डेलवाडीड ग्राम सीमा होते हुए रापाखर्रा ग्राम सीमा तक।
- पश्चिम :- रापाखर्रा ग्राम सीमा से रेल्वे लाईन के साथ साथ रेल्वे लाईन पर नाला तक।

वार्ड क्र. 31 खरमोरा वार्ड

- उत्तर :- शांतिनगर डेड रेल्वे लाईन किनारे-किनारे औद्योगिक प्रक्षेत्र के आगे रिंग रोड नगर निगम सीमा तक
- पूर्व :- नगर निगम बाह्य सीमा होते हुए झगरहा दादरखुर्द नकटीखार रोड पर नगर निगम सीमा तक।
- दक्षिण :- नगर निगम सीमा से दादरखुर्द नकटीखार मार्ग होते हुए दादरनाला पुल तक।
- पश्चिम :- दादरनाला पुल से नाला के साथ-साथ शराब दुकान होते हुए हाउसिंग बोर्ड कालोनी रोड के साथ साथ स्कूल के पीछे डी.सी.डनसेना घर से होते हुए शांतिनगर डेड रेल्वे लाईन तक।

वार्ड क्र. 32 कोसाबाडी वार्ड

- उत्तर :- ढेंगुरनाला राखड़डेम के पूर्व से नाला किनारे-किनारे नगर निगम सीमा तक।
- पूर्व :- नगर निगम सीमा से रजगामार मार्ग सीमा तक।
- दक्षिण :- रजगामार मार्ग निगम सीमा से रिसदी चौक होते हुए पुराना कलेक्टर आफिस से तहसील आफिस से जिला चिकित्सालय के पीछे होते हुए नीलाम्बरी चौक तक।
- पश्चिम :- नीलाम्बरी चौक से बालको रोड पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय बाउन्ड्री से तहसील कार्यालय रोड बालाजी मंदिर से छोटी नाला होते हुए ढेंगुरनाला तक।

वार्ड क्र. 33 रामपुर वार्ड

- उत्तर :- ढेंगुरनाला पुल से ढेंगुरनाला राखड़ डेम के आखिरी सीमा तक।
- पूर्व :- राखड़ डेम के आखिरी सीमा से रामपुर बस्ती सीमा किनारे-किनारे बालाजी मंदिर तक।
- दक्षिण :- बालाजी मंदिर के सामने भाग से तहसील कार्यालय रोड होते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक।
- पश्चिम :- पुलिस अधीक्षक कार्यालय से आई.टी.आई. चौक होते हुए बालको रोड ढेंगुरनाला पुल तक।

वार्ड क्र. 34 लालघाट वार्ड

- उत्तर :- रिटर्न केनाल बेलगिरी नाला होते हुए बजरंग चौक के दुसरी गली होते हुए परसाभाठा बाजार चौक तक।
- पूर्व :- परसाभाठा बाजार चौक से रिंग रोड होते हुए ढेंगुरनाला लालघाट पुल तक।
- दक्षिण :- ढेंगुरनाला लालघाट पुल से नाला के किनारे-किनारे चेक पोस्ट ढेंगुरनाला रेल पुल तक।
- पश्चिम :- चेकपोस्ट ढेंगुरनाला पुल से बालको मुख्य मार्ग के साथ अमरसिंह होटल से रिटर्न केनाल तक।

वार्ड क्र. 35 रिसदा वार्ड

- उत्तर :- परसाभाठा बाजार चौक से बालको बस स्टैण्ड चौक तक।
- पूर्व :- बालको बस स्टैण्ड चौक से अंबिका मंदिर रोड होते हुए रिसदा प्राथमिक शाला तक।
- दक्षिण :- रिसदा प्राथ.शाला भवन से रिंग रोड ढेंगुरनाला पुल तक।
- पश्चिम :- ढेंगुरनाला पुल से परसाभाठा बाजार चौक तक।

वार्ड क्र. 36 पाडीमार वार्ड क्र. 01

- उत्तर :- बस स्टैण्ड से पुटका पहाड़ रोड पानी टंकी तक।
 पूर्व :- पानी टंकी से व्यासमुनि के घर होते हुए पाडीमार, भदरापारा, अम्बेडकर चौक बांयी बस्ती रोड से राखड़ बांध तक।
 दक्षिण :- राखड़ बांध से बांध के साथ-साथ रिंग रोड पुल तक।
 पश्चिम :- रिंग रोड पुल से अंबिका मंदिर रोड होते हुए बस स्टैण्ड चौक तक।

वार्ड क्र. 37 पाडीमार वार्ड क्र. 02

- उत्तर :- पुटका पहाड़ रोड पानी टंकी से निगम सीमा तक।
 पूर्व :- निगम सीमा से बाह्य सीमा होते हुए ढेंगुरनाला बिन्दु तक।
 दक्षिण :- ढेंगुरनाला बिन्दु से नाला के साथ-साथ राखड़ बांध तक।
 पश्चिम :- राखड़ बांध से पाडीमार भदरापारा अम्बेडकर चौक बस्ती दांयी ओर होते हुए पुटका पहाड़ रोड पानी टंकी तक।

वार्ड क्र. 38 बालको नगर वार्ड

- उत्तर :- मिनीमाता स्कूल के तिसरी गली से सेक्टर-1 एवं 3 को मिलाने वाले बालको राममंदिर चौक से निगम सीमा तक।
 पूर्व :- निगम सीमा से पुटका पहाड़ रोड निगम सीमा तक।
 दक्षिण :- पुटका पहाड़ रोड निगम सीमा बिंदु से बस स्टैण्ड तक।
 पश्चिम :- बस स्टैण्ड से मिनीमाता स्कूल से तिसरी गली तक।

वार्ड क्र. 39 कैलाश नगर वार्ड

- उत्तर :- बेलगरी नाला (श्मसानघाट) पुल से नाला के साथ-साथ दोंदरो ग्राम की सीमा तक।
 पूर्व :- दोंदरो ग्राम सीमा के साथ सेक्टर-2 की ओर जाने वाली रोड पर मिनीमाता स्कूल के तिसरी गली रोड होते हुए मिनीमाता स्कूल तक।
 दक्षिण :- मिनीमाता स्कूल चौक से स्टेट बैंक चौक तक।
 पश्चिम :- स्टेट बैंक चौक से बेलगरी नाला (श्मसानघाट) पुल तक।

वार्ड क्र. 40 परसाभाठा क्र. 01 वार्ड

- उत्तर :- शिव मंदिर के पास बेलगरी नाला से नाला के साथ-साथ श्मसानघाट पुल तक।
 पूर्व :- पुल (श्मसानघाट) से बैंक की ओर जाने वाली रोड होते हुए स्टेट बैंक चौक तक।
 दक्षिण :- स्टेट बैंक चौक से मुख्य मार्ग पर परसाभाठा बाजार चौक तक।
 पश्चिम :- परसाभाठा बाजार चौक से बाजार के किनारे-किनारे शिव मंदिर के पास बेलगरी नाला तक।

वार्ड क्र. 41 परसाभाठा क्र. 02 वार्ड

- उत्तर :- बजरंग चौक के दुसरी गली बेलगरी नाला के रिंग रोड पर बेलगरी नाला पुल से नाला के साथ-साथ शिवमंदिर तक।
 पूर्व :- बेलगरी नाला शिवमंदिर से बाजार के किनारे-किनारे परसाभाठा बाजार चौक तक।
 दक्षिण :- परसाभाठा बाजार चौक से बजरंग चौक दुसरी गली तक।
 पश्चिम :- बजरंग चौक दुसरी गली से बेलगरी नाला पुल तक।

वार्ड क्र. 42 रूमगरा वार्ड

- उत्तर :- हसदेव बांध पर निगम सीमा से, निगम सीमा के साथ-साथ रूमगरा ग्राम सीमा पूर्वी छोर तक।
 पूर्व :- रूमगरा ग्राम सीमा पूर्वी छोर से ग्राम सीमा के साथ-साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं बेलगरी नाला तक।
 दक्षिण :- बेलगरी नाला पर रूमगरा ग्राम सीमा से नाला के साथ-साथ कोरबा कटघोरा मुख्य मार्ग ध्यानचंद चौक मार्ग पर बेलगरी नाला पुल तक।
 पश्चिम :- कोरबा कटघोरा मुख्य मार्ग पर ध्यानचंद चौक से शिवनगर होते हुए हसदेव बराज के साथ-साथ निगम सीमा तक।

वार्ड क्र.43 हसदेव क्र. 01 वार्ड

- उत्तर :- प्रेमनगर तिराहा से एच.टी.पी.पी. के बाउण्ड्रीवाल से जल विद्युत संयंत्र रिटर्न केनाल होते हुए हसदेव नदी तक।
 पूर्व :- हसदेव नदी के साथ-साथ हसदेव बरौज तक।
 दक्षिण :- हसदेव बरौज से मुख्य मार्ग के साथ जोन आफिस तिराहा तक।
 पश्चिम :- जोन कार्यालय तिराहा से मुख्य मार्ग के साथ-साथ जैलगाँव चौक न्यू निगम कॉम्प्लेक्स के सामने एच. टी.पी.पी.बाउण्ड्रीवाल के साथ प्रेमनगर तिराहा तक।

वार्ड क्र. 44 हसदेव क्र. 02 वार्ड

- उत्तर :- एच.टी.पी.पी. बाउण्ड्री से क्लब के पीछे रोड होते हुए क्वा.नं.एफ 865 तक।
 पूर्व :- क्वा.नं.एफ.865 से क्वा.नं. ई. 421 से लाल मैदान के सामने रोड से हास्पिटल चौक होते हुए रशियन हास्टल तक।
 दक्षिण :- रशियन हास्टल से एच.टी.पी.पी. बाउण्ड्री होते हुए प्रेमनगर तिराहा तक।
 पश्चिम :- प्रेमनगर तिराहा से एच.टी.पी.पी.गेट बाउण्ड्रीवाल तक।

वार्ड क्र. 45 हसदेव क्र. 03 वार्ड

- उत्तर :- राखड़ पाईप लाईन सर्विस रोड स्थित पुलिया से गांधी चौक से निगम सीमा रिटर्न केनाल होते हुए हसदेव नदी तक।
 पूर्व :- निगम सीमा हसदेव नदी से नदी के किनारे-किनारे जल विद्युत संयंत्र रिटर्न केनाल के पास हसदेव नदी तक।
 दक्षिण :- हसदेव नदी से जल विद्युत संयंत्र के समीप एच.टी.पी.पी. बाउण्ड्रीवाल से हास्पिटल चौक से क्लब के पीछे रोड होते हुए एच.टी.पी.पी. बाउण्ड्रीवाल तक।
 पश्चिम :- एच.टी.पी.पी. बाउण्ड्रीवाल से राखड़ पाईप लाईन सर्विस रोड स्थित पुलिया तक।

वार्ड क्र. 46 अयोध्यापुरी वार्ड

- उत्तर :- कटघोरा मुख्य मार्ग पर निगम सीमा इंडियन आयल बाउण्ड्रीवाल होते हुए रिटर्न केनाल निगम सीमा तक।
- पूर्व :- रिटर्न केनाल निगम सीमा से गांधीचौक से राखड़ पाईप लाईन सर्विस रोड स्थित पुलिया से पावर सिटी बाउण्ड्रीवाल तक।
- दक्षिण :- पावर सिटी बाउण्ड्रीवाल से होते हुए शहीद वीर नारायण चौक तक।
- पश्चिम :- शहीद वीर नारायण चौक से कटघोरा मुख्य मार्ग होते हुये इंडियन आयल बाउण्ड्रीवाल तक।

वार्ड क्र. 47 जमनीपाली वार्ड

- उत्तर :- अहिरन नदी पर डूमरमुड़ा ग्राम सीमा/निगम सीमा होते हुए कटघोरा मुख्य मार्ग आई.बी.पी.चोरभट्टी ग्राम एवं निगम सीमा तक।
- पूर्व :- चोरभट्टी एवं निगम सीमा से इंडियन बाउण्ड्रीवाल होते हुए मुख्य मार्ग होते हुए शहीद वीर नारायण सिंह चौक से जमनीपाली एन.टी.पी.सी.गेट तक।
- दक्षिण :- एन.टी.पी.सी. गेट जमनीपाली से बांकीमोंगरा रोड होते हुए अहिरन नदी पर कुमगरी ग्राम सीमा तक।
- पश्चिम :- कुमगरी ग्राम निगम सीमा से अहिरन नदी के साथ डूमरमुड़ा निगम सीमा तक।

वार्ड क्र. 48 सुमेधा वार्ड

- उत्तर :- सेमीपाली ग्राम सीमा अहिरन नदी से बांकीमोंगरा रोड के साथ-साथ एन.टी.पी.सी. बाउण्ड्री जमनीपाली एन.टी.पी.सी. गेट तक बॉयी ओर।
- पूर्व :- एन.टी.पी.सी. गेट से एन.टी.पी.सी. बाउण्ड्रीवाल के किनारे-किनारे आगारखार लाटा ग्राम सीमा होते हुए बलगीखार ग्राम सीमा तक।
- दक्षिण :- बलगीखार ग्राम सीमा से नागिनभाठा, सलिहाभौठा होते हुये सुमेधा ग्राम सीमा के साथ-साथ अहिरन नदी तक।
- पश्चिम :- अहिरन नदी से नदी के किनारे-किनारे होते हुए सेमीपाली ग्राम सीमा तक।

वार्ड क्र. 49 शक्तिनगर क्र. 01 वार्ड

- उत्तर :- डी.पी.एस.स्कूल से एन.टी.पी.सी. बाउण्ड्रीवाल के किनारे-किनारे अंबेडकर भवन तक।
- पूर्व :- अंबेडकर भवन से सुभाष स्टेडियम तक।
- दक्षिण :- सुभाष स्टेडियम से अगारखार गेट होते हुए बलगी रोड राखड़ पाईप लाईन तक।
- पश्चिम :- बलगी राखड़ पाईप लाईन होते हुए डी.पी.एस.स्कूल तक।

वार्ड क्र. 50 शक्तिनगर क्र. 02 वार्ड

- उत्तर :- शहीद वीरनारायण चौक से स्वास्थ्य केन्द्र होते हुए पावर सिटी भाटापारा रोड स्थित बाउण्ड्रीवाल तक।
- पूर्व :- पावर सिटी भाटापारा रोड स्थित बाउण्ड्रीवाल से प्रेमनगर तिराहा होते हुए एन.टी.पी.सी. मेन गेट तक।
- दक्षिण :- एन.टी.पी.सी. मेन गेट से सुभाष स्टेडियम तक।
- पश्चिम :- सुभाष स्टेडियम से प्रियदर्शनी व्यावसायिक परिसर होते बाउण्ड्रीवाल के किनारे-किनारे शहीद वीरनारायण चौक तक।

वार्ड क्र. 51 सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर वार्ड

- उत्तर :- बलगी रोड राखड़ पाईप लाईन से अगारखार एन.टी.पी.सी. गेट होते हुए एन.टी.पी.सी. कॉलोनी बाउण्ड्री के साथ एन.टी.पी. सी मेन गेट तक।
- पूर्व :- एन.टी.पी.सी. मेन गेट से मुख्य मार्ग पर दर्री बाजार तक एवं दर्री बाजार से एफ.सी. आई. बाउण्ड्री होते हुये बलगीखार केंदईखार के.सी.जैन मार्ग तक।
- दक्षिण :- के.सी.जैन मार्ग से रक्सीपारा को छोड़ते हुए केंदईखार ग्राम सीमा तक।
- पश्चिम :- केंदईखार ग्राम सीमा से सुमेधा ग्राम सीमा बिंदु से लाटा बलगी रोड स्थित राखड़ पाईप लाईन तक।

वार्ड क्र. 52 दर्रीखार क्र. 01 वार्ड

- उत्तर :- दर्री बाजार मेन रोड़ थाना एवं सिंचाई कालोनी होते हुए तुलसी सुपर सेल गली दर्री तक।
- पूर्व :- तुलसी सुपर सेल गली से होते हुए नहर के किनारे-किनारे प्लांट बाउण्ड्री मोड़ तक।
- दक्षिण :- प्लांट के पिछे मोड़ से बाउण्ड्री किनारे होते हुए केंदईखार ग्राम सीमा प्लांट के मोड़ तक।
- पश्चिम :- केंदईखार ग्राम सीमा बिन्दु से प्लांट के किनारे-किनारे फर्टिलाइजर कालोनी, नीलगिरी बस्ती से दर्री बाजार एवं थाना मेन रोड़ तक।

वार्ड क्र. 53 दर्रीखार क्र. 02 वार्ड

- उत्तर :- तुलसी सुपर सेल गली दर्री से हसदेव बराज तक।
- पूर्व :- हसदेव बराज से हसदेव नदी के किनारे-किनारे गेरवाघाट तक।
- दक्षिण :- हसदेव नदी गेरवाघाट से नाला के किनारे-किनारे केनाल तक।
- पश्चिम :- केनाल से प्लांट बाउण्ड्री होते हुये तुलसी सुपर सेल गली दर्री तक।

वार्ड क्र. 54 सर्वमंगला नगर वार्ड

- उत्तर :- अहिरन नदी पुल से अहिरन नदी किनारे-किनारे हसदेव नदी तक।
- पूर्व :- हसदेव नदी से नदी के किनारे किनारे सर्वमंगला मंदिर निगम सीमा तक।
- दक्षिण :- सर्वमंगला मंदिर निगम सीमा से चन्द्रनगर ग्राम सीमा एवं निगम सीमा तक।
- पश्चिम :- निगम सीमा बिन्दू से चन्द्रनगर ग्राम सीमा होते हुए दुरपा-जरहा जेल रेल्वे क्रासिंग पार करते हुए केनाल रोड़ अहिरन नदी पुल तक।

वार्ड क्र. 55 बलगीखार वार्ड

- उत्तर :- बलगी कालोनी के समीप रेल्वे लाईन पर सुमेधा ग्राम सीमा होते हुए लाटा एवं केंदईखार ग्राम सीमा मिलन बिन्दु तक।
- पूर्व :- लाटा एवं केंदईखार ग्राम सीमा मिलान बिन्दु से रक्सीपारा को शामिल करते हुए चारपारा राखड़ बाँध तक।
- दक्षिण :- चारपारा राखड़ बाँध के किनारे-किनारे होते हुये अहिरन नदी तक।
- पश्चिम :- अहिरन नदी बिन्दु से अहिरन नदी के साथ-साथ रेल्वे लाईन को क्रास करते हुये बलगी कालोनी के बाहरी सीमा को छूते हुये बलगी कालोनी के समीप रेल्वे लाईन तक।

वार्ड क्र. 56 डगनियाखार वार्ड

- उत्तर :- घुड़देवा मुख्य मार्ग पर चटाईनार चौराहा से हाई स्कूल होते हुए अहिरन नदी पार कर रेल्वे लाईन तक।
- पूर्व :- बलगी कालोनी के समीप रेल्वे लाईन से बलगी कालोनी के बाहरी सीमा को छूते हुये रेल्वे लाईन तक
- दक्षिण :- रेल्वे लाईन से रेल्वे लाईन के साथ-साथ अहिरन नदी तक।
- पश्चिम :- अहिरन नदी से होते हुए भैरोताल ग्राम सीमा से बलगी मोड से रेल्वे लाईन के साथ-साथ खोलार नदी के साथ रोहिना ग्राम को सामिल करते हुए खदान नं. 3-4 के बाहरी सीमा होते हुए बुधवारी मार्ग होते हुए चटाईनार चौराहा तक।

वार्ड क्र. 57 भैरोताल वार्ड

- उत्तर :- कुचैना ग्राम सीमा भक्तुदफाई के पास से रेल्वे लाईन पार करते हुये अहिरन नदी तक।
- पूर्व :- अहिरन नदी के किनारे-किनारे होते हुये रेल्वे लाईन तक।
- दक्षिण :- रेल्वे लाईन के किनारे-किनारे मुख्य मार्ग पार करते हुए दीपका रोड रेल्वे अंडरब्रीज तक।
- पश्चिम :- दीपका रोड रेल्वे अंडरब्रीज से रेल्वे लाईन होते हुए मुख्य मार्ग से कुचैना ग्राम सीमा तक।

वार्ड क्र. 58 इमलीछापर वार्ड

- उत्तर :- दीपका रोड रेल्वे अंडरब्रीज से मुख्य मार्ग पार करते हुए रेल्वे लाईन के किनारे किनारे अहिरन नदी पुल तक।
- पूर्व :- अहिरन नदी पुल से नदी के किनारे किनारे नदी पर लक्ष्मण नाला मिलन बिन्दु तक।
- दक्षिण :- लक्ष्मण नाला मिलन बिन्दु से विकासनगर रोड पर बी.एम.एस. ऑफिस होते हुए विकास नगर मुख्य मार्ग पार कर इमली छापर चौक से इमलीछापर रेल्वे फाटक से रेल्वे लाईन के साथ साथ गेवरा रेल्वे स्टेशन तक।
- पश्चिम :- गेवरा रेल्वे स्टेशन से इमलीछापर रेल्वे फाटक होते हुए रेल्वे लाईन के किनारे-किनारे दायी तरफ दीपका रोड पर रेल्वे अंडरब्रिज तक।

वार्ड क्र. 59 विकास नगर वार्ड

- उत्तर :- अहिरन नदी पर लक्ष्मण नाला मिलन बिन्दु से अहिरन नदी के साथ राखड़ बॉध तक।
- पूर्व :- राखड़ बॉध से जरहा जेल ग्राम सीमा होते हुये दुरपा ग्राम सीमा तक।
- दक्षिण :- दुरपा ग्राम सीमा से मुख्यमार्ग पर दायी तरफ रेल्वे लाईन के किनारे किनारे गेवरा रेल्वे स्टेशन तक।
- पश्चिम :- गेवरा रेल्वे स्टेशन से मुख्य मार्ग पार कर विकास नगर रोड पर बी.एम.एस. ऑफिस के दायी तरफ होते हुए अहिरन नदी तक।

वार्ड क्र. 60 गेवरा वार्ड

- उत्तर :- हरदीबाजार मार्ग पर नराईबोध ग्राम सीमा से मुख्य मार्ग होते हुए इमलीछापर चौक रेल्वे फाटक तक।
- पूर्व :- इमलीछापर रेल्वे फाटक से मुख्य मार्ग के किनारे-किनारे दायी तरफ खम्हरिया पेट्रोल पंप से दुरपा ग्राम सीमा होते हुए दुल्लापुर चन्द्रनगर ग्राम सीमा मिलान बिन्दु तक।
- दक्षिण :- चन्द्रनगर ग्राम सीमा मिलान बिन्दू से निगम सीमा होते हुये नराईबोध/निगम सीमा तक।
- पश्चिम :- नराईबोध/निगम सीमा से हरदीबाजार मुख्य मार्ग पर नराईबोध ग्राम सीमा तक।

वार्ड क्र. 61 आदर्श नगर वार्ड

- उत्तर :- कुचैना रेल्वे जक्शन से रेल्वे लाईन होते हुए दीपका रोड रेल्वे अंडर ब्रिज तक।
- पूर्व :- दीपका रोड रेल्वे अंडर ब्रिज से रेल्वे लाईन होते हुए इमलीछापर फाटक तक।
- दक्षिण :- इमलीछापर फाटक से कबीर चौक होते हुए आदर्श नगर कॉलोनी के अंतिम छोर तक।
- पश्चिम :- आदर्श नगर कॉलोनी के अंतिम छोर से कुचैना रेल्वे जक्शन तक।

वार्ड क्र. 62 नरईबोध वार्ड

- उत्तर :- निगम सीमा पर रेल्वे लाईन से रेल्वे लाईन के साथ-साथ कुचैना ग्राम सीमा होते हुए खोलार नाला पार कर रोहिना ग्राम सीमा तक।
- पूर्व :- रोहिना ग्राम सीमा से खोलार नाला होते हुए दीपका रोड पर रेल्वे अंडर ब्रिज से कुचैना रेल्वे जक्शन होते हुए कबीर चौक तक।
- दक्षिण :- कबीर चौक से हरदीबाजार रोड निगम सीमा तक।
- पश्चिम :- हरदीबाजार रोड, निगम सीमा से रेल्वे लाईन तक।

वार्ड क्र. 63 मोंगरा वार्ड

- उत्तर :- मोंगरा ग्राम सीमा निगम सीमा से सुतरा रोड पर पुराना शराब दुकान दायी तरफ टेलर दुकान से मेन रोड पर दौलत ढाबा तक।
- पूर्व :- दौलत ढाबा से बांकी 1-2 खदान रोड होते हुए रेल्वे क्रासिंग पार करते हुए मडवाढोड़ा ग्राम सीमा एवं रोहिना ग्राम सीमा से खोलार नदी तक।
- दक्षिण :- खोलार नदी से रेल्वे लाईन के साथ-साथ निगम सीमा तक।
- पश्चिम :- निगम सीमा पर रेल्वे लाईन से पुरैना, मोंगरा ग्राम निगम सीमा तक।

वार्ड क्र. 64 घुडदेवा वार्ड

- उत्तर :- गजरा चौक से जैतखाम से गजरा साईट बस्ती को सम्मिलित करते हुए अहिरन नदी तक।
- पूर्व :- अहिरन नदी से अहिरन नदी के किनारे-किनारे घुडदेवा रोड पर चटाईनार चौराहा मुख्य मार्ग होते हुए रोहिना ग्राम सीमा तक।
- दक्षिण :- रोहिना ग्राम सीमा से खदान नं. 3-4 होते हुए रोहिना ग्राम सीमा तक।
- पश्चिम :- रोहिना ग्राम सीमा मडवाढोड़ा ग्राम सीमा बाँकी ग्राम सीमा होते हुए गजरा चौक तक।

वार्ड क्र. 65 बांकीमोंगरा क्र. 01 वार्ड

- उत्तर :- मुख्य मार्ग पर दौलत ढाबा से टेलर दुकान के सामने भाग से सुतरा रोड मुख्य मार्ग पर पुराना शराब दुकान से रोड पार करते हुए सतचण्डी मंदिर होते हुए मुख्य मार्ग पर मारुति इलेक्ट्रिकल तक।
- पूर्व :- मुख्य मार्ग पर मारुति इलेक्ट्रिकल बजरंग चौक होते हुए गजरा चौक से आफिसर कॉलोनी के पीछे बाँकी ग्राम सीमा होते हुए मड़वाढोढा बांकी ग्राम सीमा बिन्दू तक।
- दक्षिण :- मड़वाढोढा बाँकी ग्राम सीमा बिन्दू से बाँकी ग्राम सीमा होते हुए खदान नं. 1-2 रोड तक।
- पश्चिम :- खदान नं. 1-2 रोड होते हुए मुख्य मार्ग पर दौलत ढाबा तक।

वार्ड क्र. 66 बांकीमोंगरा क्र. 02 वार्ड

- उत्तर :- बाँकी कटघोरा मार्ग में निगम सीमा होते हुए बाँकीमोंगरा बाजार रोड तक।
- पूर्व :- बाँकीमोंगरा बाजार रोड निगम सीमा से बाँकीमोंगरा बाजार होते हुए बाँकीमोंगरा चौक से मारुति इलेक्ट्रिकल दुकान तक।
- दक्षिण :- मारुति इलेक्ट्रिकल से सतचण्डी मंदिर होते हुए पुराना शराब दुकान मुख्य मार्ग से कटघोरा मार्ग में आजाद चौक तक।
- पश्चिम :- आजाद चौक कटघोरा रोड होते हुए निगम सीमा तक।

वार्ड क्र. 67 गजरा वार्ड

- उत्तर :- बांधापारा जंगल साईड निगम सीमा से सेमीपाली एवं गजरा ग्राम निगम सीमा तक।
- पूर्व :- सेमीपाली एवं गजरा ग्राम सीमा के साथ-साथ होते हुए अहिरन नदी तक।
- दक्षिण :- अहिरन नदी से मुख्य से जैत खाम एवं गजरा साइट बस्ती को छोड़ते हुए गजरा चौक तक एवं गजरा चौक से बांकीमोंगरा चौक तक।
- पश्चिम :- बांकीमोंगरा चौक से साप्ताहिक बाजार होते हुए बांधापारा जंगल साईड निगम सीमा तक।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई, 2019

क्रमांक : एफ 1-106/2019/18 :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-106/2019/18 दिनांक 12.07.2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar dated 12 July, 2019

NOTIFICATION

No. F-1-106/2019/18.- In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 10 of the chhattisgarh municipal corporation act 1956 (No.23 of 1956) the State Government hereby determine the extent of wards of Municipal Corporation Korba, Distt.Korba as per schedule given Below :-

1. Divides Municipal Corporation Korba into 67 wards and described the limits of each ward as shown in schedule.
2. Notified that one councilor shall be elected from each such ward.

SCHEDULE

| S.No.of ward | Name of the ward |
|--------------|----------------------|
| 1 | Ramsagar Para Ward |
| 2 | Saket Nagar Ward |
| 3 | Ratakhari Ward |
| 4 | Dewangan Para Ward |
| 5 | Dhanuhar Para Ward |
| 6 | Purani Basti Ward |
| 7 | Moti Sagar Para Ward |
| 8 | Imliduggu Ward |
| 9 | Bhilaikhurd Ward |
| 10 | Sitamani Ward |
| 11 | Nai Basti Ward |
| 12 | Sharda Vihar Ward |
| 13 | Parivahan Nagar Ward |
| 14 | Pump House Ward |
| 15 | C.S.E.B. No. 1 Ward |

| | |
|----|------------------------------------|
| 16 | Kohadiya Ward |
| 17 | Patharri Para Ward |
| 18 | C.S.E.B. No. 2 Ward |
| 19 | C.S.E.B. No. 3 Ward |
| 20 | Kashinagar Ward |
| 21 | Budhawari Ward |
| 22 | Shivaji Nagar Ward |
| 23 | Pt. Ravi Shankar Shukla Nagar Ward |
| 24 | Maharana Pratap Nagar Ward |
| 25 | Nehru Nagar Ward |
| 26 | Mudapar Ward |
| 27 | S.E.C.L. Colony Ward |
| 28 | Dr.Rajendra Prasad Nagar Ward |
| 29 | Podibahar Ward |
| 30 | Manikpur Ward |
| 31 | Kharmora Ward |
| 32 | Kosabadi Ward |
| 33 | Rampur Ward |
| 34 | Lalghat Ward |
| 35 | Risda Ward |
| 36 | Padimar No.1 Ward |
| 37 | Padimar No.2 Ward |
| 38 | Balco Nagar Ward |
| 39 | Kailash Nagar Ward |
| 40 | Parsabhatha No. 1 Ward |
| 41 | Parsabhatha No. 2 Ward |

| | |
|----|--------------------------------------|
| 42 | Rumgara Ward |
| 43 | Hasdeo No. 1 Ward |
| 44 | Hasdeo No. 2 Ward |
| 45 | Hasdeo No. 3 Ward |
| 46 | Ayodhyapuri Ward |
| 47 | Jamnipali Ward |
| 48 | Sumedha Ward |
| 49 | Shakti Nagar No. 1 Ward |
| 50 | Shakti Nagar No. 2 Ward |
| 51 | Sardar Vallabh Bhai Patel Nagar Ward |
| 52 | Darrikhar No. 1 Ward |
| 53 | Darrikhar No. 2 Ward |
| 54 | Sarwamangla Nagar Ward |
| 55 | Balgikhar Ward |
| 56 | Daganiyakhar Ward |
| 57 | Bhairotal Ward |
| 58 | Imlichhaper Ward |
| 59 | VikashNagar Ward |
| 60 | Gevra Ward |
| 61 | Adarsh Nagar Ward |
| 62 | Naraibodh Ward |
| 63 | Mongra Ward |
| 64 | Ghurdeva Ward |
| 65 | Banki Mongra No. 1 Ward |
| 66 | Banki Mongra No. 2 Ward |
| 67 | Gajra Ward. |

Descriptions of the Boundries of ward of Municipal Corporation Korba

Ward No. 1 – Ramsagar Para Ward

- North** : On the right side of Anganwadi towards the Coal Diversion Road from Mission School (Jyoti U.M.V.) to the petrol pump on Darri Road.
- East** : From Darri road petrol pump to Murarka petrol pump, till the railway crossing.
- South** : Railway crossing to Sarwamangla railway Pool along railway line.
- West** : Sarwamangla Pool to mission school (Jyoti H.S. School) along the Nadi.

Ward No. 2 – Saket Nagar Ward

- North** : Along Nahar Gevraghat colony to the outer premises of the Modern School, Atal Housing and Budhia Petrol Pump, towards Stadium road along T.P.Nagar upto Nehru Nagar Chowk.
- East** : From Nehru Chowk towards Power House Road upto Sunaliya Pool.
- South** : From Sunaliya Pool to Murarka Petrol pump along left side of Power House road.
- West** : From Murarka petrol pump, via darri road, going along the Nahar side upto Gerva Ghat colony

Ward No. 3 – Ratakhar Ward

- North** : Along Hasdeo Nadi, from Tina Dafai to the Nahar.
- East** : From the Nahar to the tri-junction of Darri road Nahar, from the Coal Diversion Road to its right side along the side of the petrol pump.
- South** : From the right side of the petrol pump, from the side of the pond to the back of the Aangan Bari Bhawan on the side of the Coal diversion Road to the Hasdeo Nadi.
- West** : Beside Hasdeo Nadi upto Tina Dafai along Ratakhar Basti.

Ward No. 4 – Dewangan Para Ward

- North** : From Sarwamangala Pool to railway line crossing along railway line throw Durpa Road.
- East** : Railway crossing up to main road, from Gandhi chowk to Rani Gate.
- South** : Rani Gate, outside of K.N.Collage. To the Pachari Ghat on the left side of Vishwanath Mandir on the left side of the P.S. building.
- West** : Pachari Ghat Chir Bangla Road outside KN College, on the right side, to Indira Nagar Sarwamangla Pool.

Ward No. 5 – Dhanuharpara Ward

- North** : Primary School Building Rani Gate to Gaytri Mandir along Rani Road.
East : From Gayatri Mandir Chowk to Muktidham Tiraha along Motisagar Road.
South : Muktidham Tiraha to Mukti Dham from Pachari Ghat to the Hasdeo Nadi.
West : Pachari Ghat, on the right side of P.S.Building, from the Vishwanath Mandir on the banks of the Hasdeo Nadi, towards the Rani Gate.

Ward No. 6 – Purani Basti Ward

- North** : Gandhi Chowk to Ravi Sound Service Chauraha, Main Road.
East : From Ravi Sound Service to S.N. Singh House along Main Road.
South : S.N. Singh House to Rani Gate on Motisagar marg along Udiya muhalla, Mochi muhalla, Sheetla Mandir, Bajrang Mandir, Muktidham Tiraha, Itwari bazar Gayatri Mandir Chowk rani road right side upto Rani Gate.
West : Rani Gate to Gandhi chowk along Purani Basti left Side.

Ward No. 7 – Moti Sagarpara Ward

- North** : Along Hasdeo Nadi Muktidham to S.D. Singh House along Motisagar Para.
East : S.D. House to Imliduggu Tiraha along Main road.
South : Imliduggu Tiraha to Hasdeo Nadi Pokhari Para.
West : Along Hasdeo Nadi to Muktidham.

Ward No. 8 – Imliduggu Ward

- North** : From Railway Tiraha Chowk, Railway station to Railway line Pool.
East : From the railway line Pool, opposite the Naveen High School, on the right side of the Hanuman Darbar, to the Nahar Pool main road.
South : From Nahar Pool Main Road to Sitamani Chowk Tiraha to Main Road Gupta Kirana Store.
West : From Main Road Gupta Kirana Store to Ramesh Gali , from Rakesh Book Depot to Station Road Station Tiraha Chowk

Ward No. 9 – Bhilai Khurd Ward

- North** : Through the Hanuman Darbar from Nahar Pool Main Road, in front Naveen High School, from the lane to the railway Pool railway line, to the Corporation (Nagar Nigam) Boundry Dhelvadih.
- East** : Nigamseema Dhelwadih to Karra Nala Barbuspur Dom Nala along Rapakharra Gram boundry.
- South** : Barbaspur Gram to Hasdeo Nadi along Dom Nala.
- West** : Along Hasdeo Nadi to Manikpur Khadan from the Imliduggu Tiraha to Nahar Pool main road.

Ward No. 10 – Sitamani Ward

- North** : Main road from Murarka Gali upto railway line upto Nahar Pool.
- East** : Along railway line to Station road Tiraha.
- South** : Station road tiraha to Rakesh Book Depot Ramesh Gali, from Gupta Kirana Store Main Road Sitamani,
- West** : Gupta kirana store from main road Sitamani to main road Murarka Gali.

Ward No. 11 – Nai Basti Ward

- North** : Masjid to Sharda Vihar Railway crossing along Power House Road.
- East** : Sharda Vihar Railway crossing to Pani Tanki Muhalla upto railway line.
- South** : Pani Tanki Muhalla railway line to Murarka Gali main road.
- West** : Murarka Gali main road to Masjid along Main road.

Ward No. 12 – Sharda Vihar Ward

- North** : Sharda Vihar Railway crossing to Petrol pump Tiraha Coal diversion road along Nehru Chowk.
- East** : Petrol pump Coal diversion road to Railway colony Jhoparpatti.
- South** : Railway colony Jhoparpatti to railway Colony in the front of Qtr No.1/80 to the railway crossing.
- West** : Railway crossing to Sharda Vihar crossing along Railway line.

Ward No. 13 – Parivahan Nagar Ward

- North** : S.E.C. L. Pani Tanki to C.S.E.B. Chowk along C.S.E.B. road.
- East** : C.S.E.B. Chowk to Nehru Chowk along Main Road.
- South** : Nehru Chowk to Punjabi Gurudwara along Stadium Road.
- West** : Punjabi Gurudwara to S.E.C.L Pani Tanki along 15 block pump House road.

Ward No. 14 – Pump House Ward

- North** : S.E.C.L. Pump house to S.E.C.L. Pani Tanki.
East : S.E.C.L. Pani Tanki Pump House Pani Tanki.
South : From the SECL Pani tanki to the outer premises of Budhia Petrol Pump from the Ahata of Atal Housing, through the outer Ahata of the Modern School, to the Hasdeo Nadi.
West : Along Hasdeo Nadi to S.E.C.L. Pump House .

Ward No. 15 –C.S.E.B. No. 01 Ward

- North** : From Russian Hostel via Dhangur Nala upto Dhangur nala pool
East : From Dhangur nala Pool upto C.S.E.B. Chowk
South : From C.S.E.B. Chowk to via Panchwati Rest House Road along Hasdeo Nadi to pump House
West : From pump House along Nadi to Russian hostel

Ward No. 16 – Kohadiya Ward

- North** : From Hadeo Baraj to Belgiri nala Nahar Syphon.through Major Dhayanchand chowk.
East : Belgiri Nala to return Nahar along Power House Boundary upto Dengur Nala.
South : Along Dhengurnala upto Hasdeo Nadi
West : Along Hasdeo Nadi upto Baraj.

Ward No. 17 – Patharri Para Ward

- North** : Dhengurnala to Ganesh Pandal Patharri para right side.
East : By Ganesh Pandal from Railway puliya, till Indira Chowk
South : Indira Chowk from Andhari kachhar Tiraha-Nair Galli-Gandhi Putla-Jain Mandir Chowk, CSEB. Up to the chowk.
West : C.S.E.B. Chowk to Dhengurnala pool along main road.

Ward No. 18 – C.S.E.B. No.02 Ward

- North** : From return Nahar to Balco Filter plant .
East : From Balco Filter plant to Rampur Police chowki second road along main road and ITI chowk.
South : From Rampur Police Chowki second road to Aara Machine chowk including internal portion.
West : From Aara Machine chowk to Andhrai Kachhar School Tiraha via - Indira Chowk-Dhegurala Railway Pool, to Return Nahar.

Ward No. 19 – C.S.E.B. No. 03 Ward

- North** : Aara Machine chowk to the way to Colony Via near Rampur Chowki upto second road.
East : From near Rampur Chowki second road to Nilambari Chowk.
South : Nilambari Chowk to Subhash Chowk along main road.
West : Subhash chowk to Aara Machine Chowk.

Ward No. 20 – Kashi Nagar Ward

- North** : Near Gandhi Putla Budhram Mistry house to the Nair Gali, Via to the Aara Machine Tiraha.
East : Aara Machine Tiraha to Subhash Chowk.
South : Subhash Chowk upto Mahanadi Vistar Complex .
West : Mahanadi Vistar Complex to Gyananjali School- Arya Vidya School- SheshMani Soni- Rajesh Chandra while staying at home, to the Budhram Mistry house near Gandhi Putla.

Ward No. 21 – Budhwari Ward

- North** : From the Jain Mandir chowk, to Gandhi putla via the Gauri Shankar Mandir.
East : From Gaurishankar Mandir to Rajesh Chandra, Seshmanyi Soni-Arya Shishu Mandir –Manch - Gyananjali School towards Mahanadi Vistar Complex Smriti Udhyan.
South : Mahanadi Vistar Complex to Ghanta Ghar Chowk .
West : Ghanta Ghar Chowk to By way of Maharana Pratap Chowk in the main road, till Jain Mandir Chowk.

Ward No. 22 – Shivaji Nagar Ward

- North** : Ghanta Ghar Chowk to Niharika road Subhash Chowk.
East : Subhash Chowk to Nala on Pondibahar road in front side of Shivaji Nagar colony.
South : Nala Back side of Shivaji Nagar to Tarun Sharma House .
West : Tarun Sharma House to Ghanta Ghar chowk via Shivaji Nagar road.

Ward No. 23 – Pt. Ravi Shankar Shukla Nagar Ward

- North** : From SECL GM Office to M.P.Nagar Atal Awas Tiraha
East : From M.P.Nagar Atal Awas Tiraha to Tarun Sharma house to nala with SLRM Center via S.E.C.L. Near the Magazine near Till wine shop
South : S.E.C.L. Near the Magazine near the wine shop to the Manikpur road near Manikpur Muktidham, along with the nala.
West : Manikpur road near Manikpur Muktidham along with SECL GM office chowk.

Ward No. 24 – Maharana Pratap Nagar Ward

- North** : SECL From Idgah to the main road along with the Ghantaghar Chowk.
East : Ghanta Ghar Chowk to MP Nagar Atal Awas Tiraha.
South : MP Nagar Atal Awas Tiraha to S.E.C.L. Manoranjan club.
West : SECL From the Manoranjan club to S.E.C.L. Colony M type, SECL Till idgah

Ward No. 25 – Nehru Nagar Ward

- North** : T.P. Nagar (Nehru) Chowk to C.S.E.B. Chowk.
East : C.S.E.B. Chowk to Jain Mandir- MaharanaPratap Chowk and along with Ghanta Ghar Chowk.
South : At the front of Idghah, with the GhantaGhar Chowk, S.E.C.L. Colony M-type colony , Manoranjan club - SECL GM Office Chowk.
West : SECL From GM Office Chowk to TP Nagar (Nehru) Chowk.

Ward No. 26 – Mudapar Ward

- North** : Coal diversion road tiraha to Kali Mandir chowk.
East : Kali Mandir Chowk to Coal diversion road via internal road.
South : Coal diversion road to Amraiya para tiraha .
West : Amraiya para tiraha to coal diversion road tiraha via coal diversion road.

Ward No. 27 – S.E.C.L. Colony Ward

- North** : S.E.C.L.Kali Mandir chowk to S.E.C.L. G.M. office chowk via Manikpur Road by ChitraGupt Mandir.
East : Manikpur Road by ChitraGupt Mandir to Apart from the Nala near the Mukti Dham along the railway line.
South : The railway line along the railway line along the railway line as well as the railway colony adding to the crossing.
West : Railway Colony Crossing to Railway Colony- Mudapar bypass road, down from Bhagwat Singh's house, SECL Until the Kali Mandir Chowk.

Ward No. 28 – Dr. Rajendra Prasad Nagar Ward

- North** : Subhash Chowk to Shastri Chowk- D.F.O. Bungalow in front of the hospital, from Tehsil office to Risdi Chowk via Rajgamar Road.
East : Risdi Chowk to Rajgamar dead railway line .
South : Rajgamar dead railway line to Shivaji Nagar dead railway line crossing via Dstt. Jail & Industrial Area .
West : Shivaji Nagar dead railway line to Shubhas Chowk.

Ward No. 29 – Podibahar Ward

- North** : Shivaji Nagar dead railway line(Pondibahar Talab) to dead railway line Shanti Nagar.
- East** : Shanti Nagar to Behind the school from Shantinagar to Kharmora School, from the residence of D.C. Dansena, the Housing Board,
- South** : Housing Board, Colony Turn from Daihanpara to SECL Magazine Wine shop nala SLRM center
- West** : SLRM Center to nala With Taran Sharma-Ghanshyam Sahu-Sharma poultry farm along the Dead Railway line near Podibhar Talab.

Ward No. 30 – Manikpur Ward

- North** : Manikpur Railway line by nala to Manikpur Muktidham along with a nala, Pool to Dadar road.
- East** : Dadar Kharmora check along the road from Pulia on Dadar Road, to the Chauhan Samaj Samudaik Bhawan by the reception door-Dadar post office.
- South** : From Chauhan Samaj Samudaik Bhawan to via Dadarkhur- Dhelwadih Gram, Boundary to Rappakhra Gram Boundary.
- West** : Rapakharra Vilage boundary to Railway line via Railway line nala.

Ward No. 31 – Kharmora Ward

- North** : Along Shanti Nagar dead railway line towards after Industrial area upto Ring road to Nagar Nigam boundary.
- East** : Along Nagar Nigam boundary via Jagarha, Dadarkhurd Naktikhar road to nagar nigam boundary.
- South** : Nagar Nigam boundary to Dadarkhurd Naktikhar road via Dadarnala Pool.
- West** : Along with the Nala from Dadarnala Pool, as well as Wine Shop, along with the Housing Board Colony Road, along the DC Dansena house from the school to the Shanti nagar Dead Railway line.

Ward No. 32 – Kosabadi Ward

- North** : Along East part of Dhangurnala Rakhar Dam to Nagar Nigam boundary.
- East** : Nagar Nigam boundary to Rajgamar road boundary.
- South** : Rajgamar road boundary to via Risdi Chowk-old collectorate-office Tehsil office to Dist Hospital behind Nilambary chowk..
- West** : Nilambary chowk to S.P. office boundary on balco road to Tehsil office road via Balaji Mandir along Chhoti Nala to Dhengur Nala.

Ward No. 33 – Rampur Ward

- North** : From Dhengurnala Pool to End of Dhengurnala Rakhar Dam.
East : End of Dhengurnala Rakhar Dam to Balaji Mandir along boundry of Rampur Basti.
South : From infront of Balaji Mandir to S.P. officer via Tahsil office road.
West : From S.P. Office to Dhengurnala Pool on Balco road via ITI Chowk.

Ward No. 34 –Lalghat Ward

- North** : From return Canal along Belgiri nala and Bajrang Chowk Second street to Parshabhata Bazar Chowk.
East : From Parshabhata Bazar Chowk to Dhegurnala Pool (Lalghat) via ring road.
South : Dhengurnala Pool (Lalghat) to Check post Dhengurnala railway Pool along Dhengurnala.
West : Check post Dhengurnala railway Pool to Belgiri nala return Canal along Balco main road via Amar singh hotel.

Ward No. 35 – Risda Ward

- North** : Parshabhata Bazar Chowk to Balco Bus Stand Chowk.
East : Balco Bus Stand Chowk to Risda Primary School Building along Ambika Mandir road.
South : Risda primary school building to Ring road Dhengurnala Pool.
West : Dhengurnala Pool to parshabhata bazaar chowk.

Ward No. 36 – Padimar No. 01 Ward

- North** : Bus Stand to Pani Tanki at Futka pahad road.
East : Futka pahad Pani Tanki to Rakhar Dam along Vyasmuni's House padimar, Bhadrappara, Ambedkar chowk, left of basti upto Rakhar Dam
South : From Rakhar Dam to ring road Pool along Rakhar Dam.
West : From Ring road Pool to Bus Stand Chowk along Ambika Mandir Road.

Ward No. 37 –Padimar No. 02 Ward

- North** : Pani Tanki at Futka pahad road to Nigam boundary.
East : Nigam boundary to Dhengurnala Pool Bindu.
South : Dhengurnala Bindu to Rakhar Dam along Dhengurnala.
West : Rakhar Dam to Padimar Bhadrappara via Ambedkar chowk right hand basti and Futka pahad road Pani Tanki.

Ward No. 38 – Balco Nagar Ward

- North** : The third lane of the Minimata School, Junction of Sector 1 & Sector 3
Balco Ram Mandir to Nigam boundary.
- East** : Nigam boundary to Putka pahad road Nigam boundary.
- South** : Putka pahad road Nigam boundary to Bus Stand.
- West** : From Bus Stand, from Minimata School to 3rd Street.

Ward No. 39 – Kailash Nagar Ward

- North** : Pool on Belgiri Nala (Samshanghat) to Dondro Gram boundary along nala.
- East** : Dondro Gram boundary to road towards Sector 2 Road to the Minimata School on the third street road to the Minimata School.
- South** : From Minimata School Chowk to State Bank Chowk..
- West** : State Bank chowk to Belgiri Nala (Samshanghat).

Ward No. 40 – Parsabhata No. 01 Ward

- North** : Shiv Mandir near Belgiri nala to Shamshan ghat Pool along nala.
- East** : Shamshan ghat Pool to State bank chowk along road going towards bank.
- South** : State Bank chowk to Parsabhatha chowk on main road.
- West** : Parsabhata chowk to Shiv Mandir near Belgirinala along bazaar.

Ward No. 41 – Parsabhata No. 02 Ward

- North** : The second street of Bajrang Chowk, on Belgiri nala Pool on ring road to Shiv Mandir along nala.
- East** : Belgiri nala Shiv Mandir to Parshabhata bazar chowk along bazar.
- South** : Parshabhatha Bazar chowk to Bajrang Chowk's second street.
- West** : Bajrang Chowk second street to Belgirinala Pool.

Ward No. 42 – Rumgara Ward

- North** : Nigam boundary on Hasdeo Dam to east side edge of Rumgara Gram boundary along nigam boundary.
- East** : East side edge of Rumgara Gram to Belgiri Nala along Gram boundary and polytechnic college.
- South** : Rumgara Gram boundary on belgirinala to Dhyanchand chowk on Korba- Katghora main road upto Belgiri Pool.
- West** : Dhyanchand chowk on Korba-Katghora main road to nigam boundary along shiv nagar and Hasdeo baraj.

Ward No. 43 – Hasdeo No. 01 Ward

- North** : Prem Nagar tiraha to Nadi along HTPP boundary wall to hydroelectric power plant return Canal along to Hasdeo Nadi.
East : Along Hasdeo Nadi to Hasdeo Baraj.
South : Hasdeo baraj to Zone office Tiraha on main road.
West : Zone office Tiraha to infront of new nigam complex Jailgaon chowk on main road, HTPP boundary wall upto Prem Nagar Tiraha.

Ward No. 44 – Hasdeo No. 02 Ward

- North** : HTPP colony boundary wall to Q.No. F-865 via behind club road.
East : Q.No. F- 865 to Q.No. E-421 to Russian Hostel along Lal Maidan road and Hospital chowk.
South : Russian Hostel to Prem Nagar tiraha along HTPP boundary.
West : Prem Nagar tiraha to HTPP Gate boundary wall.

Ward No. 45 – Hasdeo No. 03 Ward

- North** : From the Rakhar Pipe line Service Road Pulia to the Gandhi chowk, to via Nigam boundary Return Canal Hasdeo Nadi .
East : Nigam boundary Hasdeo Nadi to along hydroelectric power plant return Canal to Hasdeo Nadi.
South : Hasdeo Nadi to hydropower plant H.P.P.P. boundary wall to hospital chowk to behind the club along H.P.P.P. boundary wall
West : HTPP boundary wall to Rakhar Pipe line Service Road Pulia.

Ward No. 46 – Ayodhyapuri Ward

- North** : Nigam boundary at Katghora main road (IBP) to Return Canal Nigam boundary.
East : Return Canal Nigam boundary to Gandhi Chowk to Rakhar Pipe line Service Road Pulia to Power City boundary wall.
South : Power City boundary wall along to Sahid Veer Narayan Chowk.
West : Sahid Veer Narayan Chowk to Kataghora main route to the Indian Oil boundary wall.

Ward No. 47 – Jamnipali Ward

- North** : Dumarmuda Gram boundary/Nigam Boundary at Ahiran Nadi along to Katghora main road is to IBP Chorbhatti Gram and Nigam Boundary
- East** : From Nigam boundary IBP boundary wall at main road to Jamnipali NTPC gate to Shahid Veernarayan Singh Chowk
- South** : NTPC Gate jamnipali to Ahiran Nadi Kungari Gram boundary along Banki Mongra road.
- West** : Kungari Gram Nigam boundary to Dumarmuda Gram nigam boundary along Ahiran Nadi .

Ward No. 48 – Sumedha Ward

- North** : Semipali Gram boundary on Ahiran Nadi to NTPC Gate left side along Banki Mongra road & NTPC boundary Jamnipali.
- East** : NTPC Gate to Balgikhar Gram boundary along NTPC boundary wall & Agarkhar,Lata Gram boundary .
- South** : Balgikhar Gram boundary to Sumedha Gram boundary along Ahiran Nadi, Naginbhata & Salihabhatha.
- West** : From Ahiran Nadi to Semipali Gram boundary along Ahiran Nadi.

Ward No. 49 – Shakti Nagar No. 01 Ward

- North** : DPS School to Ambedkar Bhawan along NTPC boundary wall.
- East** : Ambedkar Bhawan to Subhash Stadium .
- South** : Subhash Stadium Agarkhar Gate along Balgi Rakhar Pipe Line .
- West** : Balgi Rakhar Pipe Line to DPS School.

Ward No. 50 – Shakti Nagar No. 02 Ward

- North** : Shahid Veer Narayan Chowk to Being the health center Boundary wall located on Power City Bhatapara Road.
- East** : Power City, Bhatapara Road, from Boundary wall to Premnagar Tiraha By the NTPC main gate.
- South** : NTPC main gate to Subhash Stadium .
- West** : Subhash Stadium to Sahid Veer Narayan chowk along Priyadarshini Commercial complex and NTPC boundary wall.

Ward No. 51 – Sardar Vallabh Bhai Patel Nagar Ward

- North** : Balgikhar Road Rakhar pipe line to Agarakhar NTPC Gate NTPC main gate along NTPC colony boundary wall.
- East** : NTPC main gate to Darri Bazar and Darri Bazar to FCI boundary wall to junction point along Balgikhar, Kaındaikhar Gram boundary KC Jain Marg.
- South** : KC Jain Marg to rest of rakshipara to Kaındaikhar Gram boundary
- West** : Kaındaikha to Sumedha Gram boundary junction to along Lata Balgikhar Road Rakhar pipe line

Ward No. 52 – Darrikhar No. 01 Ward

- North** : Darri Bazar to Tulshi Super Sale Darri along main road Thana & Irrigation Colony.
- East** : Tulshi Super Sale gali to boundary wall along Nahar, plant boundary .
- South** : Back side turning of plant to Kandaikhar boundary upto plant turning boundary wall.
- West** : Kandaikhar Gram junction to main road along fertilizer plant Nilgiri Basti to Darri Bazar and Thana Main Road

Ward No. 53 – Darrikhar No. 02 Ward

- North** : Tulshi Super Sale gali Darri to Hasdeo Baraj.
- East** : Hasdeo Baraj to Gervaghat along Hasdeo Nadi .
- South** : Hasdeo Nadi Gervaghat to Canal along Nala.
- West** : Canal to Tushi Super Sale gali Darri along plant boundary.

Ward No. 54 – Sarwmangla Nagar Ward

- North** : From Ahiran Nadi Pool to Hasdeo Nadi along Ahiran Nadi.
- East** : From Hasdeo Nadi to Sarwmangla Mandir Nigam boundary along Hasdeo Nadi .
- South** : Nigam boundary at Sarwmangla Mandir to Chandra Nagar Gram boundary upto Nigam boundary.
- West** : Nigam boundary junction to Nahar road ahiran Nadi Pool along Chandra nagar Gram boundary, Durpa Jarha Jail and crossing railway line.

Ward No. 55 – Balgikhar Ward

- North** : Near Balgi Colony railway line at Sumedha Gram to Kandaikhar Gram junction point along Lata Gram boundary.
- East** : Lata and Kandaikhar Gram boundary junction point to Charpara Dam along Kandaikhar Gram boundary Including Raksipara.
- South** : Charpara Rakhar Dam to along Ahiran Nadi.
- West** : Ahiran Nadi junction to railway line along Ahiran Nadi, crossing of railway line, outer boundary of Balgi colony upto near Balgi colony.

Ward No. 56 – Daganiakhar Ward

- North** : Ghudhdeva main road from Chatainar Chouraha to Surakachar GhudhDeva Gram boundary junction point on Ahiran Nadi to railway line near Balgi colony.
- East** : Railway line near Balgi colony along Balgi colony boundary upto railway line.
- South** : Railway line to Ahiran Nadi along railway line.
- West** : By joining the railway line along the river Kholar with the rail line from the Bhairotal village border through the Ahiran river and joining the Rohini village, the mine no. 3-4 By way of the outer boundary, on the route on Budhwari Market, upto the Chatainar chouraha..

Ward No. 57 – Bhairotal Ward

- North** : Kuchaina Gram boundary near Bhaktudafai to Ahiran Nadi along crossing of the railway line.
- East** : Along Ahiran Nadi to railway line.
- South** : Crossing the main road along the side of the railway line, till Dipka road, underPool.
- West** : From Dipka Road, Under Bridge to via Railway Line to main road of Kuchaina Village Boundary.

Ward No. 58 – Imlichhaper Ward

- North** : Dipka road crossing main road from under-Bridge On main road to Ahiran Nadi Pool along railway line.
- East** : From Ahiran Nadi Pool to Laxman nala junction point on Nadi along Nadi.
- South** : Laxman nala junction point to Vikash Nagar Road on BMS Office to Vikash Nagar Main Road crossing along Gevra Railway Station.
- West** : From Gevra Railway Station along right side of the railway line, upto Dipka road railway under-Bridge.

Ward No. 59 – Vikash Nagar Ward

- North** : Laxman nala junction point at Ahiran Nadi to Rakhar Dam along Ahiran Nadi.
- East** : Rakhar Dam to Durpa Gram boundary along Jarhajail Gram boundary.
- South** : From Durpa Gram boundary to on main road along right side of Railway line up to Gevra Railway Station.
- West** : From Railway station to Vikash Nagar Road BMS Office along right side up to Ahiran River.

Ward No. 60 – Gevra Ward

- North** : Naraibodh Gram boundary on Hardi Bazar road to Imlichhaper chowk along main road.
- East** : Imlichhaper chowk to Dullapur Chandranagar Gram boundary junction point along main road Khamaria petrol pump to Durpa Gram boundary.
- South** : Chandranagar Gram boundary junction point to nagar nigam boundary along Naraibodh Gram / nigam boundary.
- West** : Naraibodh / nigam boundary to Naraibodh Gram boundary on Hardi Bazar main road.

Ward No. 61 – Adarsh Nagar Ward

- North** : From Kuchaina railway junction to railway line, Dipka road under-Bridge.
- East** : From Dipak Road Railway Under Pool to the Imlichhaper Gate via the railway line.
- South** : Imlichhaper chowk to end portion of Adarsh Nagar colony along Kabir nagar chowk.
- West** : From end portion of Adarsh Nagar colony to Kuchaina railway junction.

Ward No. 62 – Naraibodh Ward

- North** : Railway line on nigam boundary to Rohina Gram boundary across Kholar nala along railway line, Kuchaina Gram boundary .
- East** : Rohina Gram boundary to Kabir Nagar chowk, crossing Kholar nala along Dipka Road by Kuchaina Railway Junction
- South** : Kabir Nagar chowk to nigam boundary on Hardi Bazar road.
- West** : Nigam boundary on Hardi Bazar road to railway line .

Ward No. 63 – Mongra Ward

- North** : Mongra Gram boundary from nigam boundary to Sutarra road. Old wine shop on the right side of the Tailor Shop from Main Road to Daulat Dhaba.
- East** : the crossing of Daulat Dhaba via Banki 1-2 mine road Madwadhodha Gram Border and Rohini Village boundaru to Kholar river.
- South** : From Kholar River to nigam boundary along railway line.
- West** : From railway line on nigam boundary to Purain, Mongra Gram nigam boundary .

Ward No. 64 – Ghurdeva Ward

- North** : Gajra chowk by joining the Gajra site basti from Jait kham to the Ahiran Nadi.
- East** : Ahiran Nadi, on the banks of Nadi Ahiran, on the Chatainar Chowraha main road on the Ghuddeva road to Rohina Gram boundary.
- South** : Railway Pool to Rohina Gram boundary on mines no. 3-4.
- West** : Along Rohina Gram, Madwadhodha village and banki Gram boundary upto Gajra chowk.

Ward No. 65 – Banki Mongra No. 01 Ward

- North** : On the main road, from Daulat Dhaba, from the front of the Tailor Shop, crossing the old wine shop on the main road from Sutarra Road, the Satchandi Mandir, on the main road to Maruti Electrical.
- East** : By the Maruti Electrical Bajrang Chowk on Main Road Gajra chowk to madwadhodha banki Gram boundary junction along banki Gram boundary behind officers colony.
- South** : Madwadhodha banki Gram boundary junction to road upto mines no. 1-2 along banki Gram boundary.
- West** : Doulat Dhaba to Along road for mines no. 1-2 to Banki chowk.

Ward No. 66 – Banki Mongra No. 02 Ward

- North** : Nigam boundary on Banki Katghora road upto Banki Mongra Bazar road.
- East** : Nigam boundary on Banki Mongra Bazar road to Banki Mongra chowk along Banki Mongra Bazar to Maruti Electrical shop .
- South** : The old wine shop on the main road from Katghora Road, the Satchandi Mandir, on the main road to Maruti Electrical to Azad Chowk
- West** : Azad chowk on Katghora road to Nigam boundary.

Ward No. 67 – Gajra Ward

- North** : Nigam boundary on Bandhapara jungle site to nigam boundary of Semipali & Gajra Gram.
- East** : Along Semipali & Gajra Gram boundary to Ahiran Nadi .
- South** : Ahiran Nadi to Jait Kham and rest of Gajra site basti from the Ahiran Nadi to the Gajra chowk, and from the Gajra chowk to the Bankimongra Chowk.
- West** : Banki Mongra chowk to Nigam boundary at Bandhapara jungle site along Saptahik Bazar.

By order & In the name of Governor of Chhattisgarh,
R.EKKA, Deputy Secretary.